



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 1981/वैशाख 16, 1903

No. 14]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 1981/VAISAKHA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 मई, 1981

the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100. OR-HP/1/80(1)]

आ०अ० 21(अ).—उड़ीसा राज्य में के 6-कटक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री जानकी बल्लभ पटनायक के त्यागपत्र देने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से पत्रद्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे बुरी रिक्ति को भरने के लिए 18 जून, 1981 बृहस्पतिवार से पूर्व उक्त अधिनियम के श्रौर तद्घीन बनाए गए नियमों श्रौर आदेशों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित करे।

[सं० 100/उड़ीसा-लो०सं०/1/80(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th May, 1981

O.N. 21(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri Janaki Ballav Patnaik, a member elected to that House from 6 Cuttak Parliamentary Constituency in the State of Orissa;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before 18th June, 1981 (Thursday) in accordance with

आ०अ० 22(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उड़ीसा-लो०सं०/1/80(1), तारीख 6 मई, 1981 के अनुसरण में 6-कटक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में,—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए 13 मई, 1981 (बुधवार); अन्तिम तारीख
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा 11 मई, 1981 (बृहस्पतिवार); की तारीख
- (ग) प्रप्यथिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 16 मई, 1981 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसके, यदि 12, जून, 1981 (शुक्रवार), तथा आवश्यक हो, तो मतदान होगा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व 18 जून, 1981 (बृहस्पतिवार) निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा

पत्रद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/उड़ीसा-लो०सं०/1/80(2)]

O.N. 22(E).—In pursuance of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 6-Cuttack Parliamentary Constituency in the State of Orissa in pursuance of its notification No. 100/OR-HP/1/80(1), dated the 6th May, 1981,—

- (a) 13th May, 1981 (Wednesday) as the last date for making nominations ;
- (b) 14th May, 1981 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) 16th May, 1981 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 12th June, 1981 (Friday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 18th June, 1981 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/OR-HP/1/80(2)]

आ.अ. 23(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उड़ीसा-लोकस०/1/80(1), तारीख 6 मई, 1981 के अनुसरण में लोक सभा के लिए 6 कटक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 7.30 बजे पूर्वदिन से 4.30 बजे अपराह्न तक का समय

उप समय के रूप में एतद्वारा नियत करना है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो सके, मतदान होगा।

[सं० 100/उड़ीसा-लोकस०/1/80(3)]

आदेश मे,

के० गणेशन, सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग

O.N. 23(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7.30 A.M. to 4.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 6 Cuttack Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/OR-HP/1/80(1), dated the 6th May, 1981.

[No. 100/OR-HP/1/80(3)]

By order,

K. GANESAN, Secy.
to the Election Commission of India.